



# भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9—मार्च 15, 2013 (फाल्गुन 18, 1934)  
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9—MARCH 15, 2013 (PHALGUNA 18, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2013

सं. ए-19011/06/2012-प्रशा.1--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 15.08.2012-ईओ (एमएम.1) के अनुसार सुश्री साई आह्लादिनी पंडा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा (2000) को 28.12.2012 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

सं. एफ. 6(2205)/2013-प्रशा.1--आर्थिक कार्य विभाग की फाईल सं. 13016/1/2011-आईईएस से जारी किए गए दिनांक 31.12.2012 के आदेश सं. पी-9/2012 के तहत आईईएस के एसएजी से एचएजी में पदोन्नति होने के फलस्वरूप श्री बी.एन. सतपथी ने दिनांक 14.01.2013 (पूर्वाह्न) से 67,000 (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)—79,000/- रु. के वेतनमान में योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. मुखर्जी, निदेशक

दिनांक 18 जनवरी 2013

सं. ए-19011/05/2012-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री एल. सी. गोयल, भा.प्र.से. (केरल : 79), वर्तमान में अपर सचिव, को उनके द्वारा धारित अपर सचिव के पद का अस्थायी रूप से उन्नयन कर, स्व-स्थाने आधार पर, 11.01.2013 (पूर्वाह्न) से, मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. ए-32013/03/2011-प्रशा.3--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II(ए) के द्वारा जोनिंग स्कीम के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड में चयन सूची वर्ष 2010

(भाग) (वरीयता कोटा) में सम्मिलित किए जाने तथा योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, योजना आयोग संवर्ग के निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों/तदर्थ निजी सचिवों को वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- तथा सुसंगत ग्रेड वेतन रु. 4,800/- के वेतन ढांचे में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड में दिनांक 26.11.2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र. नाम सं.	सम्मिलित वरीयता सूची में क्रम संख्या	जन्म तिथि	वरीयता सूची वर्ष
श्री/श्रीमती/कुमारी			
1. श्रेष्ठ ग्रीवर	1020	12.12.1959	1997
2. श्रीपाल सिंह	1256	16.11.1970	2003
3. चांद	1268	04.03.1971	2003

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2013

सं. ए-12025/28/2012-प्रशा.1--राष्ट्रपति, डॉ. (श्रीमती) रेणु एस. परमार, आईईएस की 37,400--67,000/- रु. + 10,000/- रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-4 में योजना आयोग सलाहकार (उद्योग एवं खनिज) के पद पर उनकी नियुक्ति की अवधि को दिनांक 29.10.2012 से एक वर्ष के लिए या इस संबंध में अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2013

सं. ए-12025/05/2012-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री के. एन. पाठक, नियमित उप-सलाहकार (सामाजिक विकास) को 14 जनवरी, 2013 से और अगले आदेशों तक नियमित पदोन्नति आधार पर 37,400--67,000/- रु. + 8,700/- रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-4 में योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2013

सं. एफ. 6(2034)/2010-प्रशा.1--राष्ट्रपति, सुश्री वंदना कुमारी जेना, भा.प्रशा.से. (ओडिशा : 79), वरिष्ठ सलाहकार, योजना आयोग को 11 जनवरी, 2013 पूर्वाह्न से अथवा इस संबंध में कोई आगे आदेश होने तक स्व-स्थाने आधार पर सचिव की श्रेणी एवं वेतन में योजना आयोग में प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. ए. 12025/1/2009-प्रशा.1--योजना आयोग की 18 अप्रैल, 2012 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, श्री आर. सी. मीणा की 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-3 में उप-सलाहकार (सामाजिक योजना) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 24.04.2012 के आगे छह माह के लिए बढ़ाते हैं।

2. अन्य निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी जो योजना आयोग की 18 अप्रैल, 2012 की पूर्व समसंख्यक अधिसूचना में उल्लिखित थीं।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. एफ. 6(2019)/2007-प्रशा.1--राष्ट्रपति, डॉ. आलोक शील, भा.प्रशा.से. (केरल : 1982), को दिनांक 23 जनवरी 2013 के पूर्वाह्न से अथवा इस संबंध में कोई आगे आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पद का अस्थाई आधार पर क्रमोन्नत करके स्व-स्थाने आधार पर अपर सचिव की श्रेणी एवं वेतन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. ए. 12025/15/2011-प्रशा.1--योजना आयोग की दिनांक 03 अक्टूबर 2011 की अधिसूचना सं. ए-12025/3/2010-प्रशा.1 के क्रम में, राष्ट्रपति, डॉ. आर. पी. सिंह, नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी योजना आयोग की 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-3 में योजना आयोग में उप-सलाहकार (शिक्षा) के पद पर उनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक बढ़ाते हैं।

2. अन्य निबंधन एवं शर्तें यथावत् रहेंगी जो योजना आयोग की 03 अक्टूबर, 2011 की पूर्व समसंख्यक अधिसूचना में उल्लिखित हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 29 जनवरी 2013

सं. एफ. 6(2206)/2013-प्रशा.1--आर्थिक कार्य विभाग की फाईल सं. 13026/3/2012-आईईएस से जारी किए गए दिनांक 18.12.2012 के आदेश सं. टी-50/2012 के अनुसरण में, आईईएस के एनएफएसजी अधिकारी श्री एम. रवीन्द्र ने कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद में वेतन बैंड-4 अर्थात् 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में 18.01.2013 (अपराह्न) से निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. एफ. 6(2046)/2008-प्रशा.1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने

पर डॉ. (श्रीमती) इन्द्राणी चन्द्रशेखरन, सलाहकार, योजना आयोग दिनांक 31 जनवरी, 2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रही हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2013

सं. ए-12025/24/2012-प्रशा. II--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी, योजना आयोग श्री हर्षित मिश्रा को पूर्णतः अस्थाई आधार पर दिनांक 10.01.2013 (पूर्वाह्न) से सीधी भर्ती आधार पर योजना आयोग में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

सुभाष चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2013

सं. ए-11013/7/2009-प्रशासन-3--माननीय सदस्य (डॉ. नरेन्द्र जाधव), योजना आयोग के कार्यालय में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में श्री किशोर ढोंडीराम राकटके की सेवाएं दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न से निरस्त की जाती हैं तथा उन्हें योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

वरीना नथानी, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-20011/1/07-प्रशा. IV--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री वरिन्दर कुमार कुकुरेजा, अनुभाग अधिकारी, योजना आयोग दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

वरीना नथानी, अवर सचिव

दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ए-32013/01/2012-प्रशा-3--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II(ए) के द्वारा जोनिंग स्कीम के अन्तर्गत चयन सूची वर्ष 2010 भाग की वरीयता कोटे हेतु उनका नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड की सूची में शामिल किए जाने तथा योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण विभाग के दिनांक 31 जनवरी, 2013 के कार्यालय आदेश सं. 20/2013-ई. I, मि. सं. ए-32014/1/2010-ई. I के द्वारा उन्हें कार्यमुक्त किए जाने के उपरान्त केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के श्रीमती रीतु

ठाकराल (सीएसएल सं. 223/चयन सूची वर्ष 1992), नियमित वैयक्तिक सहायक को योजना आयोग में निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड पीबी-2, (रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) में नियमित आधार पर दिनांक 01.02.2013 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

वरीना नथानी, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2013

सं. ए-32013/01/2012-प्रशा.-IV(वि.का.)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 3/4/2012-सी.एस. II (ए) और दिनांक 26.12.2012 के का.ज्ञा. सं. 3/4/2011-सी.एस. II (ए) के अनुसरण में, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव/नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड की वर्ष 2011 की चयन सूची में शामिल किए जाने पर, उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीख से उसी विभाग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम व पदनाम	तैनाती का वर्तमान स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सर्वश्री			
1.	अनूप सेठ, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग	16.11.2012
2.	आनंदरमन एस., प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग	16.11.2012
3.	आनंद कुमार, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग	16.11.2012
4.	वी. के. जाटव, निजी सचिव	विधायी विभाग	16.11.2012
5.	महेश कुमार, निजी सचिव	विधि कार्य विभाग	26.12.2012

आशा सोय, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. आई-14011/14/2012-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 15.02.2013 को चयन समिति की दिनांक 28.12.2012 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2011 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के झारखण्ड संवर्ग में कुल

06 मौलिक शक्तियों को भरे जाने हेतु झारखण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

## चयनसूची-2011

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	देवेन्द्र ठाकुर	17.01.1961
2.	राजकुमार लाकड़ा	02.01.1965
3.	श्रीमती संगीता कुमारी	03.07.1964
4.	राजीव रंजन सिंह	05.01.1962
5.	शैलेन्द्र कुमार सिन्हा	01.02.1967
6.	सुदर्शन प्रसाद मण्डल	12.07.1969

2. उपर्युक्त चयन सूची में शामिल सबसे कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, ओ.ए. सं. 12/2013 जो श्री मृत्युंजय किशोर मिट्टू द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के रौंची, सर्किट पीठ में दाखिल की गयी है, के निर्णय के अध्वधीन है।

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

सं. आई-14011/14/2012-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत झारखण्ड संवर्ग प्रदान करते हैं :--

## चयन सूची 2011

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	देवेन्द्र ठाकुर	17.01.1961
2.	राजकुमार लाकड़ा	02.01.1965
3.	श्रीमती संगीता कुमारी	03.07.1964
4.	राजीव रंजन सिंह	05.01.1962
5.	शैलेन्द्र कुमार सिन्हा	01.02.1967
6.	सुदर्शन प्रसाद मण्डल	12.07.1969

2. उपर्युक्त चयन सूची में शामिल सबसे कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, ओ.ए. सं. 12/2013 जो श्री मृत्युंजय किशोर मिट्टू द्वारा केन्द्रीय

प्रशासनिक अधिकरण के रौंची, सर्किट पीठ में दाखिल की गयी है, के निर्णय के अध्वधीन है।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 फरवरी 2013

सं. I-11014/08/2012-आई.पी.एस.-IV--केन्द्र सरकार, डॉ. मानवजीत सिंह ढिल्लों, भा.पु.से. (जम्मू एवं कश्मीर : 2009) का विवाह सुश्री हरप्रीत कौर, भा.पु.से. (बिहार : 2009) के साथ हो जाने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. मानवजीत सिंह ढिल्लों, भा.पु.से. (जम्मू एवं कश्मीर : 2009) का स्थानान्तरण जम्मू एवं कश्मीर से बिहार के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती है।

अरविन्द गौड़, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

सं. I-11014/02/2013-आई.पी.एस.-IV--केन्द्र सरकार, श्रीमती आर. वी. रम्या भारती, भा.पु.से. (तमिलनाडू : 2008) का विवाह श्री स्वरूप उदय कुमार, भा.प्र.से. (पश्चिम बंगाल : 2011) के साथ हो जाने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती आर. वी. रम्या भारती, भा.पु.से. (तमिलनाडू : 2008) का स्थानान्तरण तमिलनाडू से पश्चिम बंगाल के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती है।

अरविन्द गौड़, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2013

सं. 39019/02/2007-स्थापना (ख)--अपनी नियुक्ति की अवधि पूरी करने पर डॉ. के. के. पॉल ने दिनांक 05 फरवरी, 2013 (अपराह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद त्याग दिया है।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. 39019/10/2012-स्थापना (ख)--राष्ट्रपति, श्री अमर प्रताप सिंह, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त), को दिनांक 13 फरवरी, 2013 (पूर्वाह्न) से छह वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. 14015/34/2012-अ.भा.से. (I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2011 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त असम मेघालय संवर्ग (मेघालय खण्ड) में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 22 अगस्त, 2012 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत 09.01.2013 को अनुमोदित की गई मेघालय संवर्ग के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :-

प्रवर सूची, 2011 (1.1.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	श्रीमती रिपनार लिंगदोह (अ.ज.जा.)	04.07.1963
2.	श्री वालपीलटर रॉय लिंगदोह (अ.ज.जा.)	28.05.1959

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/34/2012-अ.भा.से. (I)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2011 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए मेघालय राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (1) के अंतर्गत उन्हें संयुक्त असम मेघालय संवर्ग (मेघालय खण्ड) आर्बिट्रि कर रहे हैं :-

प्रवर सूची, 2011 (1.1.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	श्रीमती रिपनार लिंगदोह (अ.ज.जा.)	04.07.1963
2.	श्री वालपीलटर रॉय लिंगदोह (अ.ज.जा.)	28.05.1959

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. 14015/19/2012-अ.भा.से. (I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय

प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2012 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम (3) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को तैयार की गई तथा विनियम 7(1) के अंतर्गत 13.02.2013 को अनुमोदित की गई राजस्थान संवर्ग के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :-

प्रवर सूची, 2012 (1.1.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

श्री लक्ष्मी नारायण सोनी

25.04.1960

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/19/2012-अ.भा.से. (I)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2012 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए राजस्थान राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (1) के अंतर्गत उन्हें राजस्थान संवर्ग आर्बिट्रि कर रहे हैं :-

प्रवर सूची, 2012 (1.1.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

श्री लक्ष्मी नारायण सोनी

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. 14015/4/2012-अ.भा.से. (I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2012 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2013 को तैयार की किए गए तथा विनियम 7(1) के तहत 13.12.2013 को अनुमोदित निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करते हुए

बिहार के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

2012 की प्रवर सूची (1.1.2011 से 31.12.2011 के बीच उद्भूत हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	मो. सोहेल	10.01.1968
2.	अमरेन्द्र प्रसाद सिंह	01.01.1962

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/4/2012-अ.भा.से. (I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2012 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए बिहार के गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग आवंटित करते हैं :--

2012 की प्रवर सूची (1.1.2011 से 31.12.2011 के बीच हुई रिक्तियों के विरुद्ध)

क्र. सं.	नाम
	सर्वश्री
1.	मो. सोहेल
2.	अमरेन्द्र प्रसाद सिंह

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/22/2012-अ.भा.से. (I)-ख--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके दिनांक 12.02.2013 के पत्र सं. एफ सं. 6/20/2012-अ.भा.से. द्वारा 2007, 2009 एवं 2010 की प्रवर सूचियां, जो इस विभाग की दिनांक 27.11.2012 की अधिसूचना सं. 14015/22/2012-अ.भा.से. (I)-क द्वारा अधिसूचित की गई थी, में नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित नाम "बिना शर्त" शामिल करने की घोषणा के पश्चात् एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से

उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को 2007, 2009 एवं 2010 की प्रवर सूचियों के लिए परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें उत्तर प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं :--

प्रवर सूची 2007

प्रवर सूची में क्र. सं.	नाम
18.	श्री इश्ता देव प्रसाद राय

प्रवर सूची 2009

4.	पुष्पापति सक्सेना
5.	अविनाश गौड़

प्रवर सूची 2010

2.	श्री राकेश कुमार
----	------------------

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. 13017/01/2012-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार और कर्नाटक सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री रमनदीप चौधरी, भा. प्र. से. (बिहार : 08) को सुश्री खुशबू गोयल, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 08) के साथ विवाह के आधार पर, बिहार संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में एतद्द्वारा स्थानान्तरित करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. 14012/06/2012-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के आन्ध्र प्रदेश राज्य

संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके नामों के सम्मुख दर्शाए गए दिनांक से स्थायी करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
(सर्व/श्री)			
1.	वादेरेवू विनय चंद	2008	01.09.2010
2.	विवेक यादव	2008	01.09.2010

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2013

सं. 23012/12/2012-अ.भा.से.-III--श्रीमती सोनाली निरंजन वायंगकर, भा.प्र.से. (म.प्र. : 2000) को उनके नाम, श्रीमती सोनाली निरंजन वायंगकर से श्रीमती सोनाली पौकशे वायंगकर परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार वे सभी कार्यालयी प्रयोजन में श्रीमती सोनाली पौकशे वायंगकर के रूप में जानी जाएंगी।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय उप प्रोतोकाल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2013

सं. डी.-III/460/सीएफ-39/2012--भारत के राष्ट्रपति मुंबई में अल्बानिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री विक्रम मुंशी को नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री विक्रम मुंशी के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य होगा, जिसका केन्द्र मुंबई होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकाल प्रमुख (एफ)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 2013

सं. ए-20011/01/2005-पीए.--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 सितम्बर, 2010 के आदेश संख्या ए-32013/09/2010-प्रशा.-I और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 6/5/2010 के सचि. (सेवा) के तहत अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर प्रोन्नति के परिणामस्वरूप श्री मंतोष चंद्र को 01.10.2010 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नेहजमांग सिमटे, अवर सचिव

सं. ए-20011/02/2005-पीए.--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के दिनांक 16 जुलाई, 2010 के आदेश संख्या ए-32013/08/2009-

प्रशा.-I और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जून, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 6/6/2009 के सचि. (सेवा) के तहत अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर प्रोन्नति के परिणामस्वरूप श्री रामकिशन को 16 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नेहजमांग सिमटे, अवर सचिव

सं. ए-20011/06/2005-पीए.--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के दिनांक 02 नवम्बर, 2011 के आदेश संख्या ए-32013/09/2011-प्रशा.-I (भाग) के तहत अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर प्रोन्नति के परिणामस्वरूप श्री सोहन सिंह को 03 नवम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नेहजमांग सिमटे, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. 3 : (फा. सं. ए-19013/27/2012-प्रशा.-I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर 2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी एस-I (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री शमिक भौमिक को दिनांक 29 नवम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की "तदर्थ" पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- (i) यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- (iii) अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में वरीयता के उद्देश्य के लिए अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (iv) जिन अधिकारियों ने सी.एस.एस. हेतु संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदिष्ट किया गया 'घ' स्तर का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें डीओपी एंड टी द्वारा नामांकन किए जाने पर पूर्वोक्त प्रशिक्षण लेना होगा।

- (v) 'तदर्थ' पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए संख्या 1083/2007 के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ओए सं. 1083/2007 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संबंधित मामलों में किये गये किसी भी अन्य आदेश के भी अधीन होगी।

अजय कुमार नेमा, निदेशक (मुख्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

सं. 123 : (फा. सं. ए-19012/23/2012.-I--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री सुनीता सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 94012) को दिनांक 17.12.2012 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. भौमिक, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 125 : (फा. सं. ए-19013/28/2012-प्रशा.-I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 दिसम्बर 2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी एस-I (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री निर्भय सिंह को दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 (अपराह्न) से तथा अगले आदेशों तक 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की "तदर्थ" पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- (i) यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- (iii) अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में वरीयता के उद्देश्य के लिए अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (iv) जिन अधिकारियों ने सी.एस.एस. हेतु संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदिष्ट किया गया 'घ' स्तर का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें डीओपी एंड टी द्वारा नामांकन किए जाने पर पूर्वोक्त प्रशिक्षण लेना होगा।

- (v) 'तदर्थ' पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए संख्या 1083/2007 के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ओए सं. 1083/2007 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संबंधित मामलों में किये गये किसी भी अन्य आदेश के भी अधीन होगी।

एस. भौमिक, अवर सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. 1 : (फा. सं. ए-38011/08/2012-प्रशा.-I)--राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य के रूप में तैनात भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा (1976) के अधिकारी श्री मोहिन्द्र सिंह बधान अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

एस. भौमिक, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2013

सं. 5 : (फा. सं. ए-12026/12/2005-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री राजन एस. कटोच, भारतीय प्रशासनिक सेवा (म.प्र. : 79), अपर सचिव के रैंक और वेतन में प्रवर्तन निदेशक को दिनांक 11.01.2013 से तथा अगले आदेशों तक उनके द्वारा धारित पद को अस्थायी उन्नयन के द्वारा स्वस्थाने आधार पर सचिव के रैंक और वेतन अर्थात् 80,000/- रुपये (नियत) के वेतनमान में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. भौमिक, अवर सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. 6 : (फा. सं. ए-38014/13/2012-प्रशा.-I)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री शंकर कुमार राय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

एस. भौमिक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2013

सं. 09 (फा. सं. ए-19013/01/2013-प्रशा.I)--राष्ट्रपति, सुश्री ऋचा रस्तोगी, (भारतीय राजस्व सेवा : आयकर) को दिनांक 20.11.2012 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव



सं. 10 (फा.सं. ए-19012/02/2013-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, श्री अमिताभ कुमार सिन्हा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 97009-क) को दिनांक 12.02.2013 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

#### आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. ए. 22011/2/2008/प्रशा.11--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 15.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 32015/4/2010-सीएस- (खण्ड-I) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 30.06.2013 तक अथवा सेवा निवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1	2
	(सर्वश्री)
1.	प्रितम सिंह
2.	सुलक्षणा मेहता
3.	एस. सुब्रमणियम
4.	रविन्दर कौर
5.	सुरेश कुमार
6.	पुष्पा गम्भीर
7.	विजय लक्ष्मी शर्मा
8.	डी.के. असीजा
9.	नीलम गांधी
10.	साधना शर्मा
11.	आभा गर्ग
12.	अजय प्रताप सिंह
13.	अनिता दिनेश
14.	दर्शन कुमार
15.	गुरदयाल सिंह
16.	हेमचन्द्र भारतीय
17.	कमल कुमार ठाकुर

1	2
18.	नरेश कुमार मेहरा
19.	प्रेम प्रकाश सोलंकी
20.	प्रणव मुखर्जी
21.	शशि मलिक
22.	अर्चना नागर
23.	पिंकी (सुश्री)
24.	वाई.वाई. पराटे
25.	प्रतिभा शर्मा
26.	भाष्कर चक्रवर्ती
27.	एन. के. अग्रवाल
28.	सतिन्दर जीत कौर
29.	किशनलाल
30.	नीरा बुद्धिराजा
31.	संतोष कुमार
32.	इलिजाबेथ कुजूर
33.	हृदय नंदशाह (03.02.2013 को देहावसान)
34.	जस्टिन खलखो
35.	विजेन्द्र सिंह

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपर्युक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :--

(क) तदर्थ नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, उन्हें अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने का या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ख) यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक चलती रहेगी। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित उनके संबंधित संवर्ग में (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. ए. 19011/1/2012/प्रशा. III--राष्ट्रपति, श्री अजय नारायण झा, भा.प्र.से. (मणिपुर एवं त्रिपुरा : 82) को रु. 67,000--79,000/- के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन में (3% की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ) पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पद के बने रहने अथवा अगले आदेशों के होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक 14वें वित्त आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राम सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2013

सं. ए. 19011/1/2013/प्रशा. II--राष्ट्रपति, श्री आशीष वच्चानी, भा. प्र.से. (तमिलनाडु : 97) को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के संगत प्रावधानों के अंतर्गत 14 फरवरी 2013 के पूर्वाह्न से सात वर्षों की अधिकतम अनुमत्य कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 09.03.2015 तक वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईप्सिता मित्रा, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. ए. 19011/2/2013/प्रशा. II--राष्ट्रपति, सुश्री शैफाली भार्गव शरण (आईआईएस:90) को 20 फरवरी 2013 के अपराह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईप्सिता मित्रा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. 8/6/2010-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री के. हरीनारायण, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै को दिनांक 05.02.2013 से और अगले आदेशों तक, अपने कार्यभार के अतिरिक्त, ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-12026/6/2010-एड. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव श्री श्याम किशोर को कार्मिक

एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के का.ज्ञा.सं. 3/4/2012-सीएस. II (ए) के अनुसरण में 18 दिसंबर, 2012 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) + 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र आर. गायकवाड़, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. 9/1/2013-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के साथ पठित व्यय विभाग (संवर्ग नियंत्रण अनुभाग) के दिनांक 15 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12026/8/2010-सीएस के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति श्री एस. पुतन्ना को वरीयता कोट के लिए जोनिंग स्कीम के अन्तर्गत चयन सूची वर्ष 2010 (विस्तारित) के लिए विनिवेश विभाग में 9,300--34,800 + ग्रेड-पे 4,800/- रुपए (पीबी-2) के वेतनमान में 07 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उनका नाम इसी तारीख से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के रूप में इस विभाग की नामावली में शामिल कर लिया गया है।

आशीष कुमार, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
(औषध विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2013

सं. ए. 19011/3/2013-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप यादव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 1992) को दिनांक 13.02.2013 (पूर्वाह्न) से 30.03.2014 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में पीबी-4 (37,400--67,000/- रुपए) + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आर. मीणा, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2013

सं. ए-42011/2/2012-प्रशासन--दिनांक 11 जनवरी, 2013 के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या 22013/2/2012-ई-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्रीमती सुशीला देवी को पी.बी.-2 में रु. 9,300--34,800/- के वेतनमान में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन पर लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक

उद्यम मंत्रालय में दिनांक 31.12.2012 पूर्वाह्न से और अगले आदेश जारी होने तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

ज्योति माथुर, अवर सचिव (प्रशासन)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. ए-32013/3/2012-एन.टी.एच. (स्थापना)--राष्ट्रपति, श्री दीपांकर दत्ता, वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) को दिनांक 29.1.2013 (पूर्वाह्न) से और श्री बुध प्रकाश, वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) को 29.1.2013 (अपराह्न) से वेतन बैंड-3 रुपए 15,600--39,100/- और 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन में राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वैज्ञानिक एसबी (रसायन) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राकेश कुमार, अवर सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 जनवरी 2013

सं. ए-12011/01/2009-स्था.--राष्ट्रपति, इस विभाग में डा. पीयूष गोयल, कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) की जैव प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में प्रतिनियुक्ति अवधि वेतन बैंड पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपए ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए में 08 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

बीना ई चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2013

सं. ए-19011/01/2013-स्था.--राष्ट्रपति, जैव प्रौद्योगिकी विभाग में श्रीमती कुसुम लता शर्मा को वेतन बैंड पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपए + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में उप सचिव (तदर्थ) के पद पर 09 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से 1 वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

बीना ई चक्रवर्ती, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जनवरी 2013

सं. 17013/26/2010-भा.व.से.II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के

नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2006-ए के लिए चयन सूची के आधार पर बिहार राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का बिहार संवर्ग आवंटित करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	कुंदन कुमार	02.01.1960
2.	मनोज कुमार सिंह	31.12.1959
3.	प्रभात कुमार जैसवाल	05.08.1961
4.	कौशलेन्द्र कुमार अकेला	11.06.1961

एस. एस. बधावन, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. ए-19011/3/2013-पी.II (.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 23/6/2012-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में सुश्री एम. गीतांजली आईएफएस (पीबी: 2001) को 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपए) में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि के शेष कार्यकाल अर्थात् 14.12.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, 01 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 18 फरवरी 2013

सं. ए-19011/4/2013-पी.-II(.)--राष्ट्रपति, द्वारा श्री रविशंकर प्रसाद आईएएस (एमएम : 1990), की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 10,000/- रुपए के ग्रेड पे बैंड-4 (37,400--67,000/- रु.) में संयुक्त सचिव के पद पर 18 फरवरी 2013 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाती है।

एम. के. राय, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 18 फरवरी 2013

सं. ए-12025/65/2011-सीएचएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सचिन सोनाजीराव कोल्ते को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में विकृति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर

के पद पर दिनांक 07.06.2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. ए-19011/01/2013-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री एस. के. श्रीवास्तव, आईएएस (यूटी: 80), को 14 फरवरी 2013 के पूर्वाह्न से अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2013

सं. 27-3076/2012-स्था. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. आ. सं. 4/14/2011-सीएस-I (डी), दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 द्वारा तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) में उनके समावेशन के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री प्रेम चन्द्र पांडे, ग्रेड-I (अवर सचिव) को सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) में ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये में कृषि एवं सहकारिता विभाग में 31 दिसम्बर, 2012 पूर्वाह्न से तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

संदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. 27-3081/2013-स्था. I--राष्ट्रपति द्वारा श्री अविनाश के. श्रीवास्तव, आईएएस (उ. प्र. : 82) को एचएजी (67,000--79,000/- रु.) पर अपर सचिव के पद पर, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में, 22 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

संदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. 27-2877/2010-स्था. I--राष्ट्रपति द्वारा श्री अनूप कुमार ठाकुर, आईएएस (एएम. : 79) को 80,000/- रुपये (निर्धारित) के शीर्ष वेतनमान पर, विशेष सचिव के पद पर, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में, स्व-स्थाने आधार पर, 11 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

संदीप कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. 29-6/2009-पीपी स्थापना--राष्ट्रपति, श्री रोहित कुमार पटेल को पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद में सीधी भर्ती

आधार पर सहायक निदेशक (कीट विज्ञान) सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अनुसचिवालयीय) पद पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) और 5,400/- रुपये के ग्रेड पे पर 27.12.2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

एम. एल. एटल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. 5-5/2012-आईएनएम--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसीएंडटीआई), फरीदाबाद में पीबी-3 (रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रुपये 5,400/-) में सहायक निदेशक डा. जे. के. त्रिवेदी और श्री श्याम बाबू को 24.01.2013 (पूर्वाह्न) से प्रोन्नति आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसीएंडटीआई), फरीदाबाद में पीबी-3 (रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रुपये 6,600/-), में उपनिदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलेश, उप सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. 6-4/2012-स्थापना--राष्ट्रपति जी, श्री उदय सिंह कुमावत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 93) को माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) के निजी सचिव, समकक्ष निदेशक स्तर (वेतन बैंड-4) रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/- (ग्रेड वेतन) में कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में 18.02.2013 अपराह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि दो वर्ष छः माह, बीस दिन के लिए मंत्री जी के सहअन्तक अथवा उनके बतौर निजी सचिव कार्य समाप्ति अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए 18 फरवरी, 2013 अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

रेखा आनन्द, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2013

शुद्धिपत्र

सं. 6-4/2012-स्थापना--श्री उदय सिंह कुमावत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 93) का माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) के निजी सचिव के तौर पर इस विभाग की 19 फरवरी, 2013 की समसंख्यक अधिसूचना में उल्लिखित केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि को 'दो वर्ष छः माह बीस दिन' के स्थान पर 'दो वर्ष छः माह चौबीस दिन' पढ़ा जाए।

रेखा आनन्द, अवर सचिव

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 2013

सं. 1-2/2012-टीएस-II--अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 52) की धारा 3(4) (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्वारा डॉ. अविनाश एस. पंत, पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कराड, महाराष्ट्र को 14.01.2013 से पे बैंड 75,500--80,000/- रुपये (वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3%) और ग्रेड वेतन शून्य (संशोधन-पूर्व वेतनमान 22,400--26,000/- रुपये) तथा जमा अन्य स्वीकार्य भत्ते पर उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

अमित शर्मा, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. ए-15-32011/1/2012-ई-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31.05.2013 तक की अवधि अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं --

क्र. सं.	नाम	सीएसएल सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री वर्गीज योहन्ना	7869	28.12.2012 (अपराह)
2.	श्री राधा कृष्ण	7881	31.12.2012 (अपराह)
3.	श्री एच. एम. सौकुसरे	8031	01.01.2013 (अपराह)

2. अधिकारियों की उपर्युक्त नियुक्ति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में लंबित ओ. ए. सं. 1083/2007 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2013

सं. ए-32011/4/2006-ई-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 जनवरी, 2013 के का. ज्ञा. सं. 4/15/2010-ई.ओ. (एमएस-I) के द्वारा श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आन्ध्र प्रदेश :

93), पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री (डॉ. डी. पुरंदेश्वरी) के पूर्व निजी सचिव को वाणिज्य विभाग में निदेशक स्तर पर दिनांक 29.10.2012 से राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) (डॉ. डी. पुरंदेश्वरी) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किये जाने के परिणामस्वरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दिनांक 28.10.2012 (अपराह) से कार्यमुक्त माना जाएगा।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2013

सं. ए-32011/5/2006-ई-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2013 के अनुसरण में और श्री अपूर्व चन्द्रा, आईएएस (महाराष्ट्र : 88), संयुक्त सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) को उनके मूल कैडर में समय पूर्व प्रत्यावर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय से 08 फरवरी, 2013 अपराह से कार्यमुक्त किया जाएगा। श्री अपूर्व चन्द्रा को अनुरोध किया जाता है कि वे आगे तैनाती के लिए अपने मूल कैडर अर्थात् महाराष्ट्र सरकार मुंबई को रिपोर्ट करें।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-38011/15/2012-स्था.I--अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर, श्री रत्न देव सहाय (सीएसएल सं. 2040), सी. एस. एस. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने), 31 जनवरी, 2013 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2013

सं. ए-32011/7/2012-ई-I--राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (डा. शशि थरूर) के प्रथम वैयक्तिक सहायक (पे बैंड-2, ग्रेड पे 4,800/- रुपए) के रूप में श्री राकेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ इंजीनियर, सिविल (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) को दिनांक 26.11.2012 (पूर्वाह) से मंत्री के वर्तमान कार्यकाल के लिए सह-समापन आधार पर अथवा मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में उनके कार्य करने की समाप्ति तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. ए-32011/5/2012-ई-I--राष्ट्रपति, श्री बी. गंगाधर, वरिष्ठ सहायक, सिंचाई और सीएडी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार को दिनांक 28.10.2012 (पूर्वाह) से मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. एम. एम. पल्लम राजू) के सहायक निजी सचिव (पे बैंड-2, ग्रेड पे (4,800/- रु.) के पद

पर मंत्री के वर्तमान कार्यकाल के लिए सह-समापन आधार पर अथवा मंत्री के सहायक निजी सचिव अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 8 फरवरी 2013

सं. ए-32011/5/2012-ई.1--राष्ट्रपति, श्री वाई. एस. के. शिशु कुमार, आईएफओएस (उ. प्र. 1987) को मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. एम. एम. पल्लम राजू) के वैयक्तिक स्टाफ में निदेशक के स्तर पर विशेष कार्याधिकारी के पद पर (प्रारंभिक नियुक्ति के समय यथा अनुमोदित उपशमन अवधि में छूट प्रदान करते हुए) "लेटरल शिफ्ट" के आधार पर 28.10.2012 से 4.11.2014 की उनके अनुमोदित कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अथवा मंत्री के सह-समाप्य आधार पर अथवा मंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य करना बंद करने तक अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी घटना पहले हो, नियुक्त करते हैं

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2013

सं. 15-2253/2006 स्था.-I--केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की 7 वर्ष की संयुक्त अवधि (संयुक्त सचिव और अपर सचिव के पद पर) समाप्त होने पर श्री एन. के. सिन्हा, भा. प्र. से. (बिहार : 80) अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) 22 जनवरी, 2013 को अपराह्न से इस मंत्रालय में उनके कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे।

2. कार्यमुक्त होने के बाद श्री एन. के. सिन्हा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/14/93-ईओ/एसएस-I/भाग, दिनांक 2 नवंबर, 1993 के अनुसरण में 23 जनवरी, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक की 59 दिन की अर्जित छुट्टी प्रदान की जाती है। श्री एन. के. सिन्हा से अनुरोध है कि उपर्युक्त छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर वे आगे तैनाती के लिए अपने मूल संवर्ग अर्थात् बिहार सरकार में रिपोर्ट करें।

संजीव श्रीवास्तव, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2013

सं. पीएफ/जी/29-प्रशासन--राष्ट्रपति ने डॉ. जी. एस. जी. अय्यंगर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमटी : 87) को 23 जनवरी, 2013 (पूर्वाह्न) से खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

थंगलेमलियन, उप सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. 17016/28/2012-एस.सी.डी.-VI--राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार को दिनांक 17.01.2013 के पूर्वाह्न अर्थात् प्रतिनियुक्ति आधार पर 3 वर्षों की अवधि के लिए उनके पदग्रहण करने की तारीख से, उनकी अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. ए. मुरलीधरन, उप सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. 36-7/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति श्री मनोहर लाल, सहायक महाप्रबंधक, बीएसएनएल, कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली को दिनांक 29.10.2012 के पूर्वाह्न से 6,600/-रु. के वेतन ग्रेड सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डॉ. श्रीमती किल्ली कृपारानी) के वैयक्तिक स्टाफ में औपचारिक आधार पर अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री मनोहर लाल की अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्ति, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा इस संबंध में अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए है।

नेहा सिंह, अवर सचिव

इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. 2(10)/2012-का.1--डॉ. दिनेश चंद्र चमोला को भारत के राजपत्र भाग-I, खण्ड-2 में प्रकाशित इस विभाग की दिनांक 01.11.2012 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने उनका निर्धारित समयावधि से पूर्व प्रत्यावर्तन अनुमोदित कर दिया है।

2. तदनुसार, डॉ. दिनेश चंद्र चमोला को इस विभाग से दिनांक 07.02.2013 (अपराह्न) से कार्यमुक्त कर दिया गया है जिससे कि वे अपने मूल कार्यकाल अर्थात् भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, हरिद्वार, देहरादून में अपना पदभार ग्रहण कर सकें।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

-दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. 3(2)/2013-का.1--राष्ट्रपति जी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को पदोन्नत होने पर 22.01.2013 (अपराह्न) से 6,600/- रु. प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी :-

क्र. सं.	नाम
1.	श्री वही वेंकटेश्वर राव (कर्मचारी कोड सं. 960)
2.	श्री नवनीत (कर्मचारी कोड सं. 961)
3.	श्री कृष्ण कुमार बी. (कर्मचारी कोड सं. 963)

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 3(2)/2013-का.-I--राष्ट्रपति जी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' को पदोन्नत होने पर दिनांक 22.01.2013 (अपराह्न) से 8,700/- रु. प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 में वैज्ञानिक 'ई' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी :-

क्र.सं.	नाम
1.	श्री ए. सी. जॉर्ज (कर्मचारी कोड सं. 221)
2.	श्री पुण्यव्रत घटक (कर्मचारी कोड सं. 853)
3.	डॉ. सोमनाथ चंद्र (कर्मचारी कोड सं. 851)

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. 4(409)/2013-का-I--राष्ट्रपति जी ने श्री जे. बी. महापात्रा, आईआरएस (आईटी : 85) को 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड (पीबी-4) में 19 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 फरवरी 2013

सं. पीएफ/4195/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति एतद्वारा श्रीमती मोना असनानी, कर्मचारी कोड सं. 4195 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक 'सी' के पद से त्याग पत्र दिनांक 25.09.2012 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. एन. कालिया, उप निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. ईआरबी-1/2012/2/68--श्री अजित सिंह, एसजी/आईआरएसई की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (पीबी-4, रुपए 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रुपए 10,000/-), में पदोन्नति होने पर उन्हें 24.12.2012 के अपराह्न से सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एच. के. जग्गी, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ए-32011/01/2012-स्थापना-II(बी)--राष्ट्रपति, श्री के. धनापालन, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को सहायक अभियंता (सिविल) समूह 'ख', राजपत्रित अधिकारी (नियमित), पे बैंड-2, वेतनमान (रुपए 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रुपए 4,600/-) के पद पर दिनांक 06 फरवरी, 2013 से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. ए-12022/2/2010-ई-I--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सचिवालय की नियुक्ति समिति, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2013 के आदेश संख्या 1/2/2013-ई.ओ. (एसएम-I) के अनुसरण में श्री विजय छिब्बर, आईएएस (एमटी : 78) को दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. 7/12/2012-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, निम्नलिखित क्षेत्रीय निदेशकों

को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से पीबी-4, रुपए 37,400--67,000/- रुपए + 10,000/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	प्रोन्नति की प्रभावी तारीख
	श्री/श्रीमती	
1.	डॉ. एन. वरदराज	10.10.2012
2.	डी. एस. सी. थाम्बी	29.10.2012

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. 09/2013 [फा.सं. 1/9/2004-प्रशासन(पार्ट)]--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 04.02.2013 के कार्यालय आदेश संख्या 12016/2/एचएजी-II/2012-आईएसएस के माध्यम से 67,000--79,000/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड-II (एचएजी-II) में श्रीमती सुधा मिधा के प्रोन्नति के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्रीमती सुधा मिधा, उप महानिदेशक (प्रभारी) को जल संसाधन मंत्रालय के एमआई (सां.) स्कंध में 04.02.2013 पूर्वाह्न से अपर महानिदेशक (सां.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. 10/2013 (फा.सं. 11/6/2012-प्रशासन-I)--मंत्रालय की दिनांक 23.01.2013 की अधिसूचना संख्या 5/2013 में निम्नवत आंशिक संशोधन किया जाता है :--

क्र. के स्थान पर सं.	पढ़ा जाए
	श्री/सुश्री
9. अपीलीय प्राधिकारी-निधि त्रिपाठी, एवं उप सचिव	आर. के. गुप्ता, निदेशक (जीडब्ल्यू एवं ई-गवर्नेंस)
10. (जीडब्ल्यू एवं ई-गवर्नेंस)	
19. सीपीआईओ-अजय कुमार, अवर सचिव (बीएम)	अजय कुमार, अवर सचिव (स्था. IV)
20. अनुभाग/डेस्क/कार्य का नाम-राज्य परियोजना स्कंध	राज्य परियोजना स्कंध-सीएडीडब्ल्यूएम संबंधी मामले
अपीलीय प्राधिकारी-जी. एस. झा, आयुक्त (एसपीआर)	प्रदीप कुमार, आयुक्त (एसपीआर)
21. कार्य का नाम-नदी बेसिन प्रबंधन, उत्तर प्रदेश, बिहार का प्रशासन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिकरण	नदी बेसिन प्रबंधन, उत्तर प्रदेश, बिहार का प्रशासन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम एवं एनडब्ल्यूडीए के तकनीकी मामले और नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी मामले।

2. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 22) की धारा 5(1) और उप धारा 19(1) की शर्तानुसार, जल संसाधन मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को जल संसाधन मंत्रालय में केन्द्रीय जल सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नामोदिष्ट किया जाता है :--

नियुक्त सीपीआईओ का नाम और पदनाम	अनुभाग/डेस्क/कार्य का नाम	नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम
सुश्री/श्री/श्रीमती रीडिंग शिमेरे, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रायद्वीपीय नदी)	प्रायद्वीपीय नदी स्कंध	जी. एस. झा, आयुक्त (प्रायद्वीपीय नदी)

शशिपाल, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. ए-12025/1/2011-आईआईएस/132-राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा 2011 के परिणाम के आधार पर श्री एम. पोन्निइन सेलवन (रैंक सं. 860) को दिनांक 21.01.2013 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 15,600--39,100/- रुपए के साथ ग्रेड पे 5,400/- रुपए में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. श्री सेलवन भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली में सहायक निदेशक के पद पर तैनात किया जाता है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2013

सं. ए-12025/1/2011-आईआईएस/156-राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा 2011 के परिणाम के आधार पर श्री केशव मूर्ति बी. ए. (रैंक सं. 867) को दिनांक 30.01.2013 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 15,600--39,100/- रुपए के साथ ग्रेड पे 5,400/- रुपए में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. श्री मूर्ति भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक के पद पर तैनात किया जाता है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. ए-32013/2/2011-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के का.ज्ञा.सं. 5/11/2011-सीएस-I (यू) द्वारा नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में ग्रेड-I



(अवर सचिव) के पद पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2009 की चयन सूची में उनके नाम को शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति वर्तमान में शहरी विकास मंत्रालय के संवर्ग में तैनात सीएसएस के निम्नलिखित अधिकारी को वर्ष 2009 के लिए चयन सूची में नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

नाम	सीएस एल सं.	जन्म तिथि	एसओ एसएल	अभ्यक्तियां
श्री यश पॉल	6186	28.07.1966	1995	प्रधान वैज्ञानिक परामर्शदाता के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर

2. यूएसएसएल-2009 में उनका नाम शामिल किए जाने पर नियमित आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति उपरोक्त उल्लिखित डीओपीटी का का.ज्ञा. में यथा निर्धारित विभिन्न शर्तों एवं निबंधनों और दिनांक 24.02.2012 के प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जन सुनवाई पीठ, नई दिल्ली के अंतरिम आदेश के अनुसार "पी. एस. भंडारी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य" शीर्षक ओ.ए. सं. 611/2012 के अंतिम निर्णय तथा किसी अन्य संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्वधीन होगी।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. ए-32013/2/2012-प्रशा.-I---कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2011-सीएस-I (यू) द्वारा नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2010 की चयन सूची में उनके नाम को शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति वर्तमान में शहरी विकास मंत्रालय के संवर्ग में तैनात सीएसएस के निम्नलिखित अधिकारी को वर्ष 2010 के लिए चयन सूची में नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

नाम	सीएसएल सं.	जन्मतिथि	एसओएसएल
श्रीमती रमा मारवाह	6601	12.10.1966	2000

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियमित आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्ति उपरोक्त उल्लिखित डीओपीटी के का.ज्ञा. में यथा निर्धारित विभिन्न शर्तों एवं निबंधनों के अध्वधीन होगी।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

## CABINET SECRETARIAT

The 4th January 2013

New Delhi, the 31st December 2012

No. A-19011/06/2012-Ad-I—The President is pleased to appoint Ms. Sai Ahlladini Panda, IA&AS(2000) as Deputy Secretary in Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 28.12.2012 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier, vide DOPT Office Memorandum No. 15/08/2012-EO(MM.I) dated 7th December, 2012.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

The 18th January 2013

No. A-19011/05/2012-Ad-I—The President is pleased to appoint Shri L.C. Goyal, IAS (KL:79), presently Additional Secretary as Special Secretary on in-situ basis, in the Cabinet Secretariat with effect from 11.01.2013 (FN) by temporarily upgrading the post of Additional Secretary held by him.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 14th January 2013

No. F. 6(2205)/2013-Adm.I—Consequent on his promotion from SAG to HAG of IES vide Deptt. of Economic Affairs Order No. P-9/2012 dated 31.12.2012 issued from their file No. 13016/1/2011-IES, Shri B.N. Satpathy has assumed charge as Senior Adviser in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%)—Rs. 79,000/- w.e.f. 14.01.2013 (FN).

S. MUKHERJEE, Director

New Delhi-110001, the 3rd January 2013

No. A-32013/03/2011-Admn.III—Consequent upon their inclusion in the Select List of Private Secretary (PS) Grade of CSSS for the Select List year 2010 (part) (SQ) under the Zoning Scheme and nomination to Planning Commission vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A), dated 23rd November, 2012, President is pleased to appoint/promote the following regular Personal Assistants (PA)/ad hoc PS of CSSS in the Planning Commission to the Private Secretary Grade of CSSS on regular basis in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with corresponding Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 26.11.2012 (FN) and until further orders:—

Sl. No.	Name (S/Shri/Ms.)	CSL No.	Date of Birth	Select List Year
1.	Sh. Sarishta Grover	1020	12.12.1959	1997
2.	Sh Shripal Singh	1256	16.11.1970	2003
3.	Chand	1268	04.03.1971	2003

G. RAJEEV, Under Secy.

No. A-12025/28/2012-Adm.I—The President is pleased to extend the tenure of deputation of Dr. (Smt.) Renu S Parmar, IES as Adviser (Industry & Minerals) in Planning Commission in Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of one year w.e.f. 29.10.2012 or until further orders whichever is earlier.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 17th January 2013

No. A-12025/05/2012-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri K. N. Pathak, a regular Deputy Adviser (Social Development) as Joint Adviser (Project Appraisal) in Planning Commission in Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on regular Promotion basis w.e.f. 14th January, 2013 and until further orders.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 18th January 2013

No. F.6(2034)/2010-Adm.I—The President is pleased to appoint Ms. Vandana Kumari Jena, IAS (OR:79), Sr. Adviser, Planning Commission as Principal Adviser in Planning Commission in the rank and pay of Secretary on in-situ basis w.e.f. forenoon of 11th January, 2013 or until further orders.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 24th January 2013

No. A. 12025/1/2009-Adm.I—In continuation of Planning Commission notification of even number 18th April, 2012, the President is pleased to extend the term of ad hoc appointment of Shri R. C. Meena as Deputy Adviser (Social Planning) for a further period of six months beyond 24.04.2012 in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/-.

2. The other terms and conditions will remain the same as was mentioned in earlier Planning Commission Notification of even number dated 18th April, 2012.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. F.6(2019)/2007-Adm.I—The President is pleased to appoint, Dr. Alok Sheel, IAS (KL:1982), as Secretary, Economic Advisory Council to the Prime Minister in the rank and pay of Additional Secretary on in-situ basis, by temporarily upgrading the post with effect from forenoon of 23.01.2013 or until further orders, whichever is earlier.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. A. 12025/15/2011-Adm.I—In continuation of Planning Commission Notifications' No. A. 12025/3/2010-Adm.I, dated 3rd October 2011, the President is pleased to extend the term of ad hoc appointment of Dr. R. P. Singh, a regular Senior Research Officer of Planning Commission as Deputy Adviser (Education) in Planning Commission in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- for the period from 01.01.2012 to 31.12.2012.

2. The other terms and conditions will remain the same as was mentioned in earlier Planning Commission Notification of even number dated 3rd October 2011.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. F.6(2206)/2013-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-50/2012 dated 18.12.2012 issued from their file No. 13016/3/2012-IES, Shri M. Ravinder, NFSG officer of IES has assumed charge as Director in Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Hyderabad in Pay Band-4 i.e. Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 18.01.2013 (AN).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 31st January 2013

No. F. 6(2046)/2008-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Dr. (Smt.) Indrani Chandrashekharan, Adviser, Planning Commission retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

G. RAJEEV, Under Secy.

New Delhi, the 17th January 2013

No. A-12025/24/2012-Adm.II—On the recommendations of the UPSC, the Competent Authority, Planning Commission appoints Shri Harshit Mishra as Senior Research Officer (Educational Planning) in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Planning Commission on Direct Recruitment basis with effect from 10.01.2013 (FN) on purely temporary basis. He will be on probation for a period of one year.

SUBHASH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 9th January 2013

No. A-11013/7/2009-Adm.3—The services of Shri Kishore Dhondiram Raktake as 1st PA to Hon'ble Member (Dr. Narendra Jadhav), Planning Commission stand terminated w.e.f. afternoon of 31st Dec., 2012 and Shri Raktake stands relieved from Planning Commission.

VARINA NATHANI, Under Secy.

The 31st January 2013

No. A-20011/1/07-Adm.-IV—On attaining the age of superannuation Shri Varinder Kumar Kukreja, Section Officer, Planning Commission retires from Government Service with effect from 31.01.2013 (A.N.).

VARINA NATHANI, Under Secy.

The 11th February 2013

No. A.32013/01/2012-Adm.III—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Private Secretary (PS) Grade of CSSS for the Select List Year 2010 (part) under the Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) and her nomination to the cadre unit of Planning Commission vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A), dated the 17th July, 2012 and after being relieved of her duties from Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution vide their Office Order No. 20/2013-E.I of F. No. A-32014/1/2010-E.I, dated the 31st January, 2013, President is pleased to appoint Smt. Ritu Thakral (CSL No. 223/SLY 1992), a regular Personal Assistant of CSSS as Private Secretary (PS) of CSSS in Planning Commission on regular basis in the Pay Band PB-2; (Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs. 4,800/-) with effect from 01.02.2013 (FN).

VARINA NATHANI, Under Secy.

#### MINISTRY OF LAW & JUSTICE

#### (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 9th January 2013

No. A-32013/01/2012-Adm.IV (LA)—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/4/2012-CS-II(A) dated 16.11.2012 and No. 3/4/2011-CS.II(A) dated 26.12.2012, the President is pleased to appoint the following officers, working as Principal Private Secretary on ad hoc basis/regular Private Secretary in CSSS cadre of Department of Legal Affairs, as Principal Private Secretary in the same Department on regular basis on their inclusion in Select List Year 2011 of the grade of Principal Private Secretary of CSSS with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name & Designation	Present place of posting	Date of joining
	(S/Shri)		
1.	Anoop Seth, PPS(ad hoc)	Legal Affairs, Law Commission	16.11.2012
2.	Anandaraman S., PPS(ad hoc)	Legal Affairs, Law Commission	16.11.2012
3.	Anand Kumar, PPS(ad hoc)	Legal Affairs	16.11.2012
4.	V.K. Jatav, PS	Leg. Deptt.	16.11.2012
5.	Mahesh Kumar, PS	Legal Affairs	26.12.2012

ASHA SOTA, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th February 2013

No. I-14011/14/2012-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 15.02.2013 approved the Select List of the year 2011 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 28.12.2012, containing the names of the following State Police Service Officers of Jharkhand Cadre towards filling up 06 substantive vacancies in the Jharkhand Cadre of IPS:—

## Select List-2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Devendra Thakur	17.01.1961
2.	Rajkumar Lakra	02.01.1965
3.	Smt. Sangita Kumari	03.07.1964
4.	Rajeev Ranjan Singh	05.01.1962
5.	Shailendra Kumar Sinha	01.02.1967
6.	Sudarshan Prasad Mandal	12.07.1969

2. The inclusion of the junior most officer in the above Select List is subject to the outcome of O.A. No. 12/2013 filed by Shri Mrityunjay Kishore Mittu before the Hon'ble CAT Circuit Bench at Ranchi.

PRASHANT NIKAM, Director (Police)

No. I-14011/14/2012-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 the President is pleased to appoint the following members of Jharkhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Jharkhand Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

## Select List-2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Devendra Thakur	17.01.1961
2.	Rajkumar Lakra	02.01.1965
3.	Smt. Sangita Kumari	03.07.1964
4.	Rajeev Ranjan Singh	05.01.1962
5.	Shailendra Kumar Sinha	01.02.1967
6.	Sudarshan Prasad Mandal	12.07.1969

2. The inclusion of the junior most officer in the above Select List is subject to the outcome of O.A. No. 12/2013 filed by Shri Mrityunjay Kishore Mittu before the Hon'ble CAT Circuit Bench at Ranchi.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

PRASHANT NIKAM, Director (Police)

New Delhi-110001, the 25th February 2013

No. I-11014/08/2012-IPS.IV—In exercise of powers conferred under Sub-Rule (2) of 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rule 1954, and with the concurrence of the Government of Jammu & Kashmir and Bihar, the Central Government hereby transfers Dr. Manavjit Singh Dhillon, IPS (JK:2009) from Jammu & Kashmir to the IPS Cadre of Bihar on the ground of his marriage with Ms. Harpreet Kaur, IPS (BH:2009).

ARVIND GAUR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-11014/02/2013-IPS.IV—In exercise of powers conferred under Sub-Rule (2) of 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rule-1954, and with the concurrence of the Government of Tamil Nadu and West Bengal, the Central Government hereby transfers Smt. R.V. Ramya Bharati, IPS (TN:2008) from Tamil Nadu to the IPS Cadre of West Bengal on the ground of her marriage with Shri Swaroop Uday Kumar, IAS (WB:2011).

ARVIND GAUR, Section Officer (IPS-IV)

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

## (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 8th February 2013

No. 39019/02/2007-Estt. (B)—Consequent upon completion of his term of appointment, Dr. K. K. Paul has demitted the office of Member, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 05th February, 2013.

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

The 19th February 2013

No. 39019/10/2012-Estt. (B)—The President is pleased to appoint Shri Amar Pratap Singh, IPS (Retd.) as Member, Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 13th February, 2013, for a period of six years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

New Delhi, the 14th February 2013

No. 14015/34/2012-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Meghalaya containing the following names prepared on 22nd August, 2012 under Regulation 5(5) and approved on 09.01.2013, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in the cadre of Joint Assam-Meghalaya (Meghalaya Segment) of IAS, under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2011 :—

Select List of 2011 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

S. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Ripnar Lyngdoh (ST)	04.07.1963
2.	Shri Walpeelter Roy Lyngdoh (ST)	28.05.1959

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/34/2012-AIS (I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Meghalaya to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2011 on probation until further orders and to allocate them to the Joint Assam-Meghalaya Cadre of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2011 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

S. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Ripnar Lyngdoh (ST)	04.07.1963
2.	Shri Walpeelter Roy Lyngdoh (ST)	28.05.1959

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

The 19th February 2013

No. 14015/19/2012-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 8 of Indian

Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Rajasthan containing the following name prepared on 29th December, 2012 under Regulation 5 and approved on 13.02.2013, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in Rajasthan cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012 :—

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

Sh. Laxmi Narayan Soni

25.04.1960

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/19/2012-AIS (I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the Non-State Civil Service of Rajasthan to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012, on probation until further orders and to allocate him to the Rajasthan Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

Sh. Laxmi Narayan Soni

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

The 21st February 2013

No. 14015/4/2012-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Bihar containing the following names prepared on 31st December, 2012 under Regulation 5 and approved on 13.02.2013, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in Bihar cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3

of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2012 :—

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

S. No.	Name	Date of Birth
1.	Md. Sohail	10.01.1968
2.	Sh. Amrendra Prasad Singh	01.01.1962

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/4/2012-AIS (I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the Non-State Civil Service of Bihar to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012, on probation until further orders and to allocate him to the Bihar Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

S. No.	Name
1.	Sh. Md. Sohail
2.	Sh. Amrendra Prasad Singh

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/22/2012-AIS (I)-B—Consequent upon declaration of inclusion of the following names as 'Unconditional' by the Union Public Service Commission through its letter No. F. No. 6/20/2012-AIS dated 12.02.2013 in the Select Lists of 2007 and 2009, 2010, as per the details given below which were notified through this department's notification No. 14015/22/2012-AIS (I)-A dated 27.11.2012 and in exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint following members of the State Civil Service of Uttar Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List years 2007, 2009 and 2010 on probation until

further orders and to allocate them to the Uttar Pradesh cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2007

S. No. in the Select List	Name
18.	Sh. Ishta Dev Prasad Rai

Select List of 2009

4.	Sh. Pushya Pati Saxena
5.	Sh. Avinash Gaur

Select List of 2010

2.	Sh. Rakesh Kumar
----	------------------

2. The appointment of the officers mentioned above will take effect from the date of issue of this notification.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 14th February 2013

No. 13017/01/2012-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Bihar and Karnataka, the Central Govt. hereby transfers Shri Ramandeep Chowdhary, IAS (BH : 08) from Bihar cadre to Karnataka cadre on the ground of marriage to Ms. Khushboo Goel, IAS (KN : 08).

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 15th February 2013

No. 14012/06/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Andhra Pradesh, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

S. No.	Name	Batch	Date of confirmation
	(S/Shri)		
1.	Vadarevu Vinay Chand	2008	01.09.2010
2.	Vivek Yadav	2008	01.09.2010

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The 20th February 2013

No. 23012/12/2012-AIS-III—Smt. Sonali Niranjani Vayangankar, IAS (MP : 2000) has been permitted to change her name from Smt. Sonali Niranjani Vayangankar to Smt. Sonali Ponshe Vayangankar. She will accordingly be recognised as Smt. Sonali Ponshe Vayangankar for all official purposes.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

##### OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL

New Delhi, the 13th February 2013

No. DIII/460/CF-39/2012—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Vikram Munshi as Honorary Consul of the Republic of Albania in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Vikram Munshi comprises the State of Maharashtra with the seat in Mumbai.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

#### MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the February 2013

No. A-20011/1/05-PA—Consequent upon his promotion to the post of Section Officer (Ad-hoc) vide Ministry of Home Affairs Order No. A-32013/09/2010-Ad.I dated 30th September, 2010 and DoP&T OM No. 6/5/2010-CS.I(S), the President is pleased to appoint Shri Mantosh Chander, Section Officer (Ad-hoc) in the Ministry of Overseas Indian Affairs with effect from the forenoon of 01.10.2010 and until further orders.

NEHJAMANG SIMTE, Under Secy.

No. A-20011/2/2005-PA—Consequent upon his promotion to the post of Section Officer (Ad-hoc) vide Ministry of Home Affairs Order No. A-32013/08/2009-Ad.I dated 16th July, 2010 and DoP&T OM No. 6/6/2009-CS(S), dated 7th June, 2010, the President is pleased to appoint Shri Ramkishan, Section Officer (Ad-hoc) in the Ministry of Overseas Indian Affairs with effect from the forenoon of 16th July, 2010 and until further orders.

NEHJAMANG SIMTE, Under Secy.

No. A-20011/06/05-PA—Consequent upon his promotion to the post of Section Officer (Ad-hoc) vide Ministry of Home Affairs Order No. A-32013/09/2011-Ad.I (Part) dated 2nd November, 2011, the President is pleased to appoint Shri Sohan Singh, Section Officer (Ad-hoc) in the Ministry of Overseas Indian Affairs with effect from the forenoon of 03.11.2011 and until further orders.

NEHJAMANG SIMTE, Under Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE

##### (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 3rd January 2013

No. 03 : (F. No. A-19013/27/2012-Ad.-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.-I (U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Shamik Bhowmick, a regular Section Officer in the CSS cadre of the Union Public Service Commission to Grade-I of the CSS (Under Secretary) on ad hoc basis in the PB-3; Rs. 15,600—39,100/- plus grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue with effect from forenoon of 29 November, 2012 and until further orders.

2. The 'ad hoc' promotion in respect of the above officer is subject to the following conditions:-

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (ii) Adhoc appointments can be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade shall not be counted for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- (iv) The Officers who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by the DOP&T;
- (v) The 'ad hoc' promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

AJAY KUMAR NEMA, Director (HQ)

New Delhi, the 19th December 2012

No. 123 : (F. No. A-19012/23/2012-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Ms. Sunita Singh, IRS (IT : 94012) as Director in the Department of Revenue for a period of five years w.e.f. 17.12.2012 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

S. BHOWMICK, Under Secy.

The 31st December 2012

No. 125 : (F. No. A-19013/28/2012-Ad.-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.-I (U) dated 06.12.2012, the President is pleased to appoint Shri Nirbhay Singh, a regular Section Officer in the

CSS cadre of the Department of Expenditure to Grade-I of the CSS (Under Secretary) on ad hoc basis in the PB-3; Rs. 15,600—39,100/- plus grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue with effect from afternoon of 11 December, 2012 and until further orders.

2. The 'ad hoc' promotion in respect of the above officer is subject to the following conditions:-

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (ii) Adhoc appointments can be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade shall not be counted for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- (iv) The Officers who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by the DOP&T;
- (v) The 'ad hoc' promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

S. BHOWMICK, Under Secy.

The 1st January 2013

No. 01 : (F. No. A-38011/08/2012-Ad.-I)—Shri Mohinder Singh Badhan, an officer of the Indian Customs and Central Excise Service (1976), posted as Member, Central Board of Excise & Customs in the Department of Revenue retired from Government Service on 31-12-2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. BHOWMICK, Under Secy.

The 30th January 2013

No. 05 : (F. No. A-12026/12/2005-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Rajan S. Katoch, IAS (MP : 79), Director of Enforcement in the rank and pay of Additional Secretary as Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement under the Department of Revenue, Ministry of Finance in the rank and pay of Secretary i.e., in the pay scale of Rs. 80,000/- (fixed), on in-situ basis, by temporarily upgrading the post held by him with effect from 11.01.2013 and until further orders.

S. BHOWMICK, Under Secy.

The 1st February 2013

No. 06 : (F. No. A-38014/13/2012-Ad.-I)—Shri Sankar Kumar Roy, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31.01.2013 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. BHOWMICK, Under Secy.

New Delhi, the 18th February 2013

No. 09 : (F. No. A-19013/01/2013-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Ms. Richa Rastogi, (IRS : IT) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 20.11.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

No. 10 : (F. No. A-19012/02/2013-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Amitabh Kumar Sinha, IRS (IT : 97009-A) as Director in the Department of Revenue for a period of five years w.e.f. 12.02.2013 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 15th February 2013

No. A-22011/02/2008-Admn.-II—In pursuance of O.M. No. 32015/04/2010-CAS (Vol.-I) dated 15.01.2013 of Department of Expenditure (CAS), the President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of the following Section Officers upto 30.06.2013, or till the date of retirement or until further orders, whichever is earlier, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs:-

Sl. No.	Name
1	2
	(Shri/Smt)
1.	Pritam Singh
2.	Sulakshna Mehta
3.	S. Subramaniam
4.	Ravinder Kaur
5.	Suresh Kumar
6.	Pushpa Gambhir
7.	Vijay Laxmi Sharma
8.	D. K. Asija
9.	Neelam Gandhi



1	2
10.	Sadhna Sharma
11.	Abha Garg
12.	Ajay Pratap Singh
13.	Anita Dinesh
14.	Darshan Kumar
15.	Gurdial Singh
16.	Hem Chand Bhartiya
17.	Kamal Kumar Thakur
18.	Naresh Kumar Mehra
19.	Prem Prakash Solanky
20.	Pronob Mukherjee
21.	Shashi Malik
22.	Archana Nagar
23.	Pinki (Ms.)
24.	Y. Y. Parate
25.	Pratibha Sharma
26.	Bhaskar Chakrabarti
27.	N. K. Aggarwal
28.	Satinder Jit Kaur
29.	Krishan Lal
30.	Neera Budhiraja
31.	Santosh Kumar
32.	Elizabeth Kujur
33.	Hriday Nand Sah, (Expired on 03.02.2013)
34.	Justine Xalxo
35.	Bijender Singh

qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DOPT.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 19th February 2013

No. A-19011/01/2012-Admn.-III—The President is pleased to appoint Shri Ajaj Narayan Jha, IAS (MT : 82) as Secretary of the 14 Finance Commission in the Pay Band and Grade Pay Rs. 67,000/- (with annual increment @ 3% per annum) Rs. 79,000/- with effect from the date of assumption of charge of the post by Shri A. N. Jha till the currency of the post or until further orders whichever is earlier.

RAM SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 20th February 2013

No. A-19011/01/2013-Admn.-II—The President is pleased to appoint Shri Ashish Vachhani, IAS (TN : 97) as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 14 February 2013 for the balance period of the maximum permissible tenure of seven years under the relevant provisions of the Central Staffing Scheme i.e. up to 09.03.2015.

IPSITA MITRA, Under Secy.

The 21st February 2013

No. A-19011/02/2013-Admn.-II—The President is pleased to appoint Ms. Sheyphali Bhargava Sharan, (IIS : 90) as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 20 February 2013 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

IPSITA MITRA, Under Secy.

2. The ad hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions:-

- Adhoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- Adhoc arrangement will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad hoc appointees not

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 15th February 2013

No. 8/6/2010-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri K. Harinarayana, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Madurai, to discharge the functions of presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, in addition to his own charge with effect from 05.02.2013 and until further orders.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

## DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 31st January 2013

No. A-12026/6/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Shyam Kishore, a regular PS of CSSS to the post of Principal Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 18th December, 2012 in pursuance to Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/4/2012-CS.II(A) dated 16.11.2012.

JITENDRA R. GAIKWAD, Under Secy.

## DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 22nd January, 2013

No. 9/1/2013-Admn—In pursuance of Department of Expenditure (Cadre Administration Section)'s O.M. No. 12026/8/2010-CAS dated 15th January, 2013 read with Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 23.11.2012, the President is pleased to appoint Shri S. Puttanna, as Private Secretary of CSSS on regular basis for the Select List year 2010 (extended) under the Zoning Scheme for seniority Quota, in the Department of Disinvestment in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- (PB-2) with effect from the forenoon of 7th January, 2013. Consequently, he has been taken on the rolls of this Department, as Private Secretary of CSSS on regular basis from that date.

ASHISH KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF CHEMICALS &amp; FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

New Delhi, the 18th February 2013

No. A-19011/3/2013Estt.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Yadav, IAS (TN : 1992) as Joint Secretary in Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) + G.P. Rs. 10,000/- with effect from 13.02.2013 (F/N), for a period upto 30.03.2014 or until further orders.

S. R. MEENA, Under Secy.

## MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES &amp; PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 18th January 2013

No. A-42011/2/2012-Admn.—In pursuance of Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry Office Order No. A-22013/2/2012-E.I dated 11th January, 2013, the President is pleased to appoint

Smt. Sushila Devi as Section Officer on purely ad hoc basis in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Rs. 4,800/- Grade Pay w.e.f. 31.12.2012 forenoon and until further orders, whichever event takes place earlier.

JYOTI MATHUR, Under Secy. (Admn.)

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 21st February 2013

No. A-32013/3/2012-NTH (Estt.)—The President is pleased to promote Shri Dipankar Dutta, Scientific Officer (Chemical) w.e.f. 29.01.2013 (FN) and Shri Budh Prakash, Scientific Officer (Chemical) w.e.f. 29.01.2013 (AN) to the post of Scientist SB (Chemical) in National Test House in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- and until further orders.

RAKESH KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF SCIENCE &amp; TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi, the 7th January 2013

No. A-12011/01/2009-Estt.—The President is pleased to extend the deputation period of Dr. Peyush Goyal, Junior Analyst (Technical) in this Department as Scientist 'C' in the Department of Biotechnology in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of one year with effect from the forenoon of 8th January, 2013 or until further orders, whichever is earlier.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 10th January 2013

No. A-19011/01/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Kusum Lata Sharma as Deputy Secretary (ad hoc) in the Department of Biotechnology in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 9th January, 2013 initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 30th January 2013

No. 17013/26/2010-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment

by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the following officers of the State Forest Service of Bihar to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2006-A and to allocate them to Bihar cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Kundan Kumar	02.01.1960
2.	Manoj Kumar Singh	31.12.1959
3.	Prabhat Kumar Jaisawal	05.08.1961
3.	Kaushalendra Kumar Akela	11.06.1961

S. S. BADHAWAN, Dir.

New Delhi-110003, the 5th February 2013

No. A-19011/3/2013-P.II(.)—The President is pleased to appoint Ms. M. Geethanjali, IFS (PB : 2001) as Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 7,600/- in pursuance to Department of Personnel & Training's O.M. No. 23/6/2012-EO(MM-I) dated 31st January, 2013 with effect from the forenoon 1st February, 2013 for the balance period of her central deputation tenure i.e. upto 14.12.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. K. RAI, Under Secy.

The 18th February 2013

No. A-19011/4/2013-P.II(.)—The President is pleased to appoint Shri Ravi Shankar Prasad, IAS (AM: 1990) as Joint Secretary in the Ministry of Environment and Forests in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon 18th February, 2013 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. K. RAI, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 18th February 2013

No. A-12025/65/2011-CHS-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sachin Sonajirao Kolte to the post of Assistant Professor of Pathology in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 07.06.2012 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th February 2013

No. A-19011/01/2013-E.I.—The President is pleased to appoint Shri. S. K. Srivastava, IAS (UT : 80), as Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Health & Family Welfare, with effect from the forenoon of 14th February, 2013.

ANIL KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 8th January 2013

No. 27-3076/2012-E.I.—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) on ad hoc basis vide Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/14/2011-CS.I(D) dated 14th December, 2012, the President is pleased to appoint Shri Prem Chandra Pande, Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) in the Selection Grade (Dy. Secretary) of CSS in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 31st December, 2012.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

The 22nd January 2013

No. 27-3081/2013-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Avinash K. Srivastava, IAS (UP : 82) as Additional Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in HAG (Rs. 67,000—79,000/-) with effect from the forenoon of 22nd January, 2013 and until further orders.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

The 23rd January 2013

No. 27-2877/2010-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Anup Kumar Thakur, IAS (AM : 79) as Special Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (fixed), on in-situ basis, with effect from the forenoon of 11th January, 2013, until further orders.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 15th February 2013

No. 29-6/2009-PP-Esstt.—The President is pleased to appoint Shri Rohit Kumar Patel to the post of Assistant Directors (Entomology) General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministrial) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- on direct recruitment

basis in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad w.e.f. 27.12.2012 (F.N.).

M. L. ATAL, Under Secy. (PP-I)

New Delhi, the 21st February 2013

No. 5-5/2012-INM—The President is pleased to appoint Dr. J. K. Trivedi and Shri Shyam Babu, Assistant Directors in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-) under Central Fertilizer Quality Control and Training Institute (CFQC&TI), Faridabad, a sub-ordinate office under the Department of Agriculture & Cooperation, to the post of Deputy Director (General Central Service Group-“A” Gazetted, Non-Ministrial) in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) under Central Fertilizer Quality Control and Training Institute (CFQC&TI), Faridabad, a sub-ordinate office under the Department of Agriculture & Cooperation with effect from 24.01.2013 (F/N), on promotion basis.

SHAILESH, Dy. Secy.

#### DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION

New Delhi, the 19th February 2013

No. 6-4/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Udai Singh Kumawat, IAS (BH : 93) as Private Secretary to Minister of State for Agriculture & Food Processing Industries (Shri Tariq Anwar) with effect from the afternoon of 18th February, 2013 at the level of Director (PB-4) [Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (GP)] in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Research & Education for the balance period of his Central Deputation tenure for two years six months and twenty days with effect from the afternoon of 18th February, 2013 or on co-terminus basis with the tenure of the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earliest.

REKHA ANAND, Under Secy.

The 21st February 2013

#### CORRIGENDUM

No. 6-4/2012-Estt.—The balance period of Central Deputation of Shri Udai Singh Kumawat, IAS (BH : 93) as Private Secretary to Minister of State for Agriculture & Food Processing Industries (Shri Tariq Anwar) mentioned as “for two years six months and twenty days” in this Department’s Notification of even number dated 19.02.2013, may be read as “for two years six months and twenty four days”.

REKHA ANAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

#### (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the February 2013

No. 1-2/2012-TS.II—In exercise of powers conferred by Section 3(4) (b) of the All India Council for Technical Education (AICTE) Act, 1987 (No. 52 of 1987), the Government of India hereby appoints Dr. Avinash S. Pant, former Principal, Government College of Engineering, Karad, Maharashtra as Vice Chairman, AICTE with effect from 14.01.2013 in the Pay Band of Rs. 75,500/- (annual increment @3%)—Rs. 80,000/- & Grade Pay-Nil (pre-revised Pay Scale of Rs. 22,400-600-26,000/-) per month plus other admissible allowances for a term of three years or till the age of 65 years or until further orders, whichever is earliest.

AMITA SHARMA, Addl. Secy.

New Delhi, the 3rd January 2013

No. A-15-32011/1/2012-E-I—The President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on ad hoc basis in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from the date of assumption of charge for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Charge Assume Date
1.	Shri Varghese Yohanan	7869	28.12.2012 (AN)
2.	Shri Radha Krishan	7881	31.12.2012 (AN)
3.	Shri H. M. Sonkusare	8031	01.01.2013 (AN)

2. The above appointment of the officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the Hon’ble CAT, New Delhi.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 11th January 2013

No. A-32011/4/2006-E-I—Consequent upon his appointment as Private Secretary to the Minister of State (Commerce & Industry) (Dr. D. Purandeswari) at Director level in the Department of Commerce w.e.f. 29.10.2012 vide DoP&T’s O.M. No. 4/15/2010-EO(MM-I) dated 10th January, 2013, Sh. Gopal Krishna Dwivedi, IAS (AP:93) former Private Secretary to the former Minister of State for Human Resource Development (Dr. D. Purandeswari) shall be deemed to have been relieved from the Ministry of Human Resource Development w.e.f. 28.10.2012 (AN).

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 30th January 2013

No. A-32011/5/2011-E-I—Consequent upon pre-mature repatriation to his parent cadre to avail the benefits of promotion and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 27/53/2012-EO(SM-I) dated 16th January, 2013, Shri Apurva Chandra, IAS (MH:88), Joint Secretary in the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development shall stand relieved of his duties from this Ministry w.e.f. the afternoon of 8th February, 2013. Shri Apurva Chandra is requested to report to his parent cadre i.e. Government of Maharashtra, Mumbai for further posting.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 31st January 2013

No. A-38011/15/2012-E-I—On attaining the age of superannuation, Shri Ratna Deva Sahay (CSL No. 2040), CSS, Joint Secretary (in-situ) in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development has retired from the Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 4th February 2013

No. A-32011/7/2012-E-I—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar Sharma, JE Civil (Central Public Works Department) as First Personal Assistant (in PB-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/-) to the Minister of State for Human Resource Development (Dr. Shashi Tharoor) with effect from 26.11.2012 (FN) on co-terminus basis with the present term of the Minister or till he ceases to function as First Personal Assistant to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 5th February 2013

No. A-32011/5/2012-E-I—The President is pleased to appoint Shri B. Gangadhar, Sr. Assistant, Irrigation & CAD Department, Govt. of Andhra Pradesh as Assistant Private Secretary (PB-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/-) to the Minister of Human Resource Development (Dr. M. M. Pallam Raju) with effect from 28.10.2012 (FN) on co-terminus basis with the present term of the Minister or till he ceases to function as Assistant Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 8th February 2013

No. A-32011/5/2012-E-I—The President is pleased to appoint Shri Y. S. K. Seshu Kumar, IFoS (UP:1987) as OSD at Director level in the personal staff of Minister for Human Resource Development (Dr. M. M. Pallam Raju) (in relaxation of cooling off as approved at the time of initial appointment) on 'lateral shift' basis with effect from 28.10.2012 and upto 04.11.2014 i.e. for the balance period of his approved tenure or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 18th January 2013

No. 15-2253/2006-E-I—On the expiry of combined Central Deputation tenure of 7 years (as Joint Secretary and Additional Secretary), Shri N. K. Sinha, IAS (BH:80), Additional Secretary in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) shall stand relieved of his duties from this Ministry w.e.f. the afternoon of 22nd January, 2013.

2. On relief, Shri N. K. Sinha is granted Earned Leave for 59 days with effect from the 23rd January, 2013 to 22nd March, 2013 in pursuance of DoPT's OM No. 27/14/93-EO/SM-I/Pt. dated 2nd November, 1993. After expiry of aforesaid leave, Shri N. K. Sinha is requested to report to his parent cadre i.e. Government of Bihar, Patna for further Posting.

SANJEEV SRIVASTAVA, Under Secy.

## MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 28th January 2013

No. PF/G/29-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. G. S. G. Ayyangar, Indian Administration Service (MT:87) as Joint Secretary, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports with effect from the forenoon of 23rd January, 2013.

THANGLEMLIAN, Dy. Secy.

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE &amp; EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 15th February 2013

No. 17016/28/2012-SCD-VI—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar as Assistant Library & Information Officer in the National Commission for Scheduled Castes with effect from the forenoon of 17.01.2013 i.e. the date of his assumption of charge on deputation basis for a period of 03 years, the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS &  
INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 11th February 2013

No. 36-7/2012-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Manohar Lal, Assistant General Manager, BSNL Corporate Office, New Delhi as Additional Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister of State for Communications & Information Technology (Dr. Smt. Kruparani Killi) on formal basis, in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 29.10.2012 (FN).

2. The appointment of Shri Manohar Lal as Additional Private Secretary is on co-terminus basis with the Minister of State for Communications & Information Technology or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

NEHA SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS &  
INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 12th February 2013

No. 2(10)/2012-Pers-I—Dr. Dinesh Chandra Chamola was appointed on deputation for a period of one year vide Department's Notification of even number dated 01.11.2012, published in the Gazette of India Part I, Section 2. The Competent Authority has approved his premature repatriation.

2. Accordingly, Dr. Dinesh Chandra Chamola has been relieved w.e.f. 07.02.2013 (AN) in order to join his parent Organisation i.e. Indian Institute of Petroleum, Council of Scientific & Industrial Research, Haridwar, Dehradun.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 14th February 2013

No. 3(2)/2013-Pers-I—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'B' of Department of Electronics and Information Technology as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- p.m. w.e.f. 22.01.2013 (AN) subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatics Centre (NIC) in the Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgment delivered on 26.09.2008 :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Vaddi Venkateshwara Rao (E. Code : 960)
2.	Shri Navneet (E. Code : 961)
3.	Shri Krishna Kumar B. (E. Code : 963)

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

No. 3(2)/2013-Pers-I—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'D' of Department of Electronics and Information Technology as Scientist 'E' in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- p.m. w.e.f. 22.01.2013 (AN) subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatics Centre (NIC) in the Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgment delivered on 26.09.2008 :—

Sl. No.	Name
1.	Shri A. C. George (E. Code : 221)
2.	Shri Punyabrata Ghatak (E. Code : 853)
3.	Dr. Somnath Chandra (E. Code : 851)

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 19th February 2013

No. 4(409)/2013-Pers-I—The President is pleased to appoint Shri J. B. Mohapatra, IRS (IT:85) as Joint Secretary & Financial Adviser in the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years with effect from forenoon of 19th February, 2013 or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 25th February 2013

No. PF/4195/NIC/2012-Adm-I—The President is pleased to accept the resignation of Smt. Mona Asnani, Emp. Code-4195 from the post of Scientist "C", NIC-Hqrs., New Delhi with effect from the afternoon of 25.09.2012 and she stands relieved of her duties from the same day.

G. N. KALIA, Dy. Dir. (Adm.-I)

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th February 2013

No. ERB-I/2012/2/68—Shri Ajit Singh, SG/IRSE, on promotion to Senior Administrative Grade (PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 10,000/-), is appointed as Officer on Special Duty to Member Engineering, Railway Board with effect from the afternoon of 24.12.2012.

H. K. JAGGI, Secy.  
(Railway Board)

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT &amp; HIGHWAYS

New Delhi, the 11th February 2013

No. A-32011/1/2012-E-II(B)—The President is pleased to appoint Shri K. Dhanapalan, Senior Technical Assistant posted at Regional Office, Thiruvananthapuram, Ministry of Road Transport & Highways as Assistant Engineer (Civil) Group 'B' Gazetted on regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from 6th February, 2013 and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 21st February 2013

No. A-12022/2/2010-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 1/2/2013-EO(SM-I) dated 31.01.2013, the President is pleased to appoint Shri Vijay Chhibber, IAS (MT:78) as Secretary, Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 01.02.2013 (F.N.).

H. R. MEENA, Under Secy.

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd January 2013

No. 7/12/2012-CGWB—The President is pleased to appoint the following Regional Directors to the post of Member in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 10,000/- in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name	Effective Date of Promotion
1.	Dr. N. Varadaraj	10.10.2012
2.	Sh. D. S. C. Thambi	29.10.2012

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

New Delhi, the 7th February 2013

No. 09/2013 [F.No. 1/9/2004-Admn.(Pt.)]—Consequent upon her promotion to the Higher Administrative Grade-II (HAG-II) of the Indian Statistical Service (ISS) on regular basis in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/2/HAG-II/2012-ISS dated 04.02.2013, the President is pleased to appoint Smt. Sudha Midha, Deputy Director General (I/c) in the MI (Stats) Wing of the Ministry of Water Resources as Additional Director General (Stats) w.e.f. the forenoon of 04.02.2013.

L. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 11th February 2013

No. 10/2013 (F.No. 11/6/2012-Admn.)—In partial modification of this Ministry's Notification No. 5/2013 dated 23.01.2013 :—

Sl. No.	For	To be read as
9 & 10	Appellate Authority-Nidhi Tripathy, Deputy Secretary (GW & e-Gov)	S/Shri R. K. Gupta, Director (GW & e-Gov)
19	CPIO-Ajay Kumar, Under Secretary (BM)	Ajay Kumar, Under Secretary (E-IV)
20	Name of the Section/Desk/Work State Projects Wing	State Projects Wing-for CADWM related matters
	Appellate Authority-G.S. Jha, Commissioner (SPR)	Pradeep Kumar, Commissioner (SPR)
21	Name of the Work-River Basis Management, Administration of UP, Bihar, MP Reorganisation Act, Inter State Water Disputes Act and Inter State Water Disputes Tribunal	River Basin Management, Administration of UP, Bihar, MP Reorganisation Act, Inter State Water Disputes Act and Inter State Water Disputes Tribunal, technical matters of NWDA and Inter-linking of Rivers

2. In terms of Section 5(1) and Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the following officers of the Ministry of Water Resources are designated as Central Public Information Officer/Appellate Authority in the Ministry of Water Resources :—

Name & Designation of CPIO appointed	Name of the Section/Desk/work	Name & Designation of the Appellate Authority appointed
S/Shri/Smt. Reading Shimray, Sr. JC (Pen. River)	Peninsular River Wing	S/Shri/Smt./Kum. G. S. Jha, Commissioner (Pen. River)

SHASHI PAL, Under Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 5th February 2013

No. A-12025/1/2011-IIS/132—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2011, the President is pleased to appoint Shri M. Ponnein Selvan (Rank No. 860) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 21.01.2013 (FN).

2. He will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director, Publications Division, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

The 13th February 2013

No. A-12025/1/2011-IIS/156—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2011, the President is pleased to appoint Shri Keshava Murthy B. A. (Rank No. 867) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 30.01.2013 (FN).

2. He will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director, Directorate of Field Publicity, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 14th February 2013

No. A-32013/2/2011-Admn.-I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of the year 2009 for appointment to the Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) on regular basis, vide Department of Personnel & Training's OM No. 5/11/2011-CS-I (U) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint the following officer of CSS presently in the cadre of Ministry of Urban Development, to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis in the Select List for the year 2009 :—

Name	CSL No.	DOB	SOSL	Remarks
Shri Yash Paul	6186	28.07.1966	1995	On deputation at the O/o the Principal Scientific Advisor

2. The appointment of abovementioned officers of Grade-I (Under Secretary) on regular basis on their inclusion in USSSL-2009 shall be subject to various terms and conditions as stipulated in DoPT's OM, referred to above and also to the final outcome in OA No. 611/2012 titled "P. S. Bhandari & Ors. Vs. UoI & Ors." in terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.02.2012, and any other order by any Competent Court in any of the connected matters.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

The 19th February 2013

No. A-32013/1/2012-Admn.-I—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of the year 2010 for appointment to the Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) on regular basis, vide Department of Personnel & Training's OM No. 5/11/2011-CS-I (U) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint the following officers of CSS presently in the cadre of Ministry of Urban Development, to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis in the Select List for the year 2010 :—

Name	CSL No.	DOB	SOSL
Smt. Rama Marwaha	6601	12.10.1966	2000

2. The appointment of abovementioned officers to Grade-I (Under Secretary) on regular basis shall be subject to various terms and conditions as stipulated in DoPT's OM, referred to above.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013